



# एकक 8

## ऐल्डहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल

### उद्देश्य


इस एकक के अध्ययन के पश्चात् आप -



- ऐल्डहाइडों, कीटोनों एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों के साधारण व IUPAC नाम लिख सकेंगे।
- कार्बोनिल व कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों की संरचना लिख सकेंगे।
- उपरोक्त वर्गों के यौगिकों के विरचन की महत्वपूर्ण विधियों एवं अभिक्रियाओं का वर्णन कर सकेंगे।
- ऐल्डहाइडों, कीटोनों एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्मों, रासायनिक अभिक्रियाशीलता और संरचनाओं के मध्य परस्पर संबंध स्थपित कर सकेंगे।
- ऐल्डहाइडों व कीटोनों की कुछ चयनित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझा सकेंगे।
- कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारकों तथा उनकी अभिक्रियाओं को समझ सकेंगे।
- ऐल्डहाइडों, कीटोनों एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोगों का वर्णन कर सकेंगे।

**कार्बनिक रसायन में कार्बोनिल यौगिकों का अत्यधिक महत्व है। यह वस्त्रों, सुगन्धों, प्लास्टिकों तथा औषधों के संघटक होते हैं।**




पिछले एकक में आपने ऐसे कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया है, जिनमें प्रकार्यात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एकल आबंध पाया जाता है। इस एकक में आप ऐसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें प्रकार्यात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य द्विआबंध ( $>\text{C=O}$ ) होता है जिसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। यह कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक समूह है।

ऐल्डहाइडों में कार्बोनिल समूह कार्बन व हाइड्रोजन से, जबकि कीटोनों में यह दो कार्बन परमाणुओं से आबंधित रहता है। कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह का कार्बन, हाइड्रोजन या कार्बन तथा हाइड्राक्सी माइटी ( $- \text{OH}$ ) की ऑक्सीजन से आबंधित रहता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जबकि वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह का कार्बन, हाइड्रोजन या कार्बन तथा  $- \text{NH}_2$  माइटी के नाइट्रोजन अथवा किसी हैलोजन से जुड़ा रहता है, क्रमशः एमाइड व ऐसिल हैलाइड कहलाते हैं। एस्टर और एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं। इन वर्गों के यौगिकों के सामान्य सूत्र नीचे दिए गए हैं—





ऐल्डहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल पौधों और जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। ये जीवों की जैव रसायनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये प्रकृति में सुगंध व स्वाद प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, वेनेलिन (बेनीला सेम से प्राप्त) सैलिसिल ऐल्डहाइड (मेडोस्कीट से प्राप्त) तथा सिनेमैल्डहाइड (दाल चीनी से प्राप्त) रुचिकर सुगंध देते हैं।



ये अनेक खाद्य उत्पादों व औषधों में सुगंध प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस वर्ग के कुछ यौगिकों का उत्पादन विलायक (ऐसीटोन) और आसंजी (चिपकने वाले) पदार्थ, पेट, रेजिन, सुगंध, प्लास्टिक, वस्त्र आदि बनाने के लिए किया जाता है।

## 8.1 कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण त्रुटं संरचना

### 8.1.1 नामपद्धति


(I) ऐल्डहाइड एवं कीटोन

ऐल्डहाइड एवं कीटोन सरलतम और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्बोनिल यौगिक हैं। ऐल्डहाइडों एवं कीटोनों के नामकरण की दो पद्धतियाँ हैं—


(क) सामान्य नाम— ऐल्डहाइड एवं कीटोन प्रायः IUPAC नामपद्धति की अपेक्षा अपने सामान्य नामों से जाने जाते हैं। ऐल्डहाइड के सामान्य नाम संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों (खंड 8.6.1) के अंग्रेजी में लिखे सामान्य नामों के अंत में स्थित अनुलग्न इक के स्थान पर ऐल्डहाइड अनुलग्न लगाकर प्राप्त करते हैं। साथ ही कार्बोक्सिलिक अम्ल या ऐल्डहाइड के नाम में वास्तविक स्रोत का नाम लेटिन या ग्रीक में प्रतिबिंबित होता है। कार्बन शृंखला में प्रतिस्थापियों की स्थिति को ग्रीक अक्षरों  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , आदि से प्रदर्शित करते हैं।  $\alpha$  उस कार्बन परमाणु को कहते हैं जो सीधे ऐल्डहाइड समूह के कार्बन परमाणु से संलग्न होता है। तत्पश्चात्  $\beta$  कार्बन तथा अन्य इसी क्रम में आगे चलते हैं। उदाहरणार्थ—



ऐसीटैल्डहाइड




बेन्जैल्डहाइड







$\beta$ -ब्रोमोब्यूटैल्डहाइड

कीटोनों के सामान्य नाम व्युत्पन्न करने के लिए कार्बोनिल समूह से जुड़े दो ऐल्किल या ऐरिल समूहों का नामकरण किया जाता है। प्रतिस्थापियों की स्थिति को ग्रीक अक्षरों  $\alpha$ ,  $\alpha'$ ,  $\beta$  आदि द्वारा प्रदर्शित करते हैं।  $\alpha$ ,  $\alpha'$  कार्बन परमाणु वे होते हैं जो सीधे कार्बोनिल समूह ( $> C=O$ ) से संलग्न होते हैं। कुछ कीटोनों के ऐतिहासिक सामान्य नाम होते हैं जैसे सरलतम डाइमेरिल कीटोन को ऐसीटोन कहते हैं। ऐल्किल फेनिल कीटोन का नाम लिखने के लिए ऐसिल समूह के नाम को फीनॉन शब्द के साथ पूर्वलग्न की तरह जोड़कर लिखा जाता है; उदाहरणार्थ—





(ख) आईयूपीएसी (IUPAC) नाम— खुली शृंखला वाले एलिफैटिक ऐल्डहाइडों एवं कीटोनों के IUPAC नाम प्राप्त करने के लिए संगत ऐल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में स्थित इ (-e) के स्थान पर क्रमशः अल (-al) एवं ओन (-one) अनुलग्न लगाते हैं। ऐल्डहाइडों में कार्बन की सबसे लंबी शृंखला का अंकन उस सिरे से शुरू किया जाता है जहाँ ऐल्डहाइड समूह स्थित होता है जबकि कीटोनों में उस सिरे से अंकन करते हैं, जो कार्बोनिल समूह के निकट होता है। प्रतिस्थापियों को पूर्वलग्न के रूप में अंग्रेजी वर्णाला के क्रमानुसार, कार्बन शृंखला में अंकों द्वारा स्थिति प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं। चक्रीय कीटोनों पर भी यही नियम लागू होता है, जिनमें कार्बोनिल के कार्बन परमाणु की स्थिति की संख्या एक (1) होती है। जब ऐल्डहाइड समूह वलय से संयुक्त होता है तो साइक्लोऐल्केन (चक्रीय ऐल्केन) का नाम लिखने के पश्चात् अनुलग्न कार्बोल्डहाइड (Carbaldehyde) जोड़ देते हैं। वलय के कार्बन परमाणुओं का संख्यांकन उस कार्बन परमाणु से आरंभ करते हैं, जिससे ऐल्डहाइड समूह संयुक्त होता है। सरलतम ऐरोमेटिक ऐल्डहाइड, जिसमें ऐल्डहाइड समूह बेन्जीन वलय पर स्थित होता है, का नाम बेन्जीनकार्बोल्डहाइड है। यद्यपि, IUPAC पद्धति द्वारा सामान्य नाम बेन्जैल्डहाइड भी स्वीकृत है। अन्य प्रतिस्थापित ऐरोमेटिक ऐल्डहाइडों के नाम बेन्जैल्डहाइड के व्युत्पन्न के रूप में दिए जाते हैं।





4-नाइट्रोबेन्जेलिडहाइड अथवा  
4-नाइट्रोबेन्जीनकार्बॉलिडहाइड



प्रोपेन-1,2,4-ट्राइकार्बॉलिडहाइड


**[नोट]** - सभी ऐल्डहाइड समूहों के समान निरूपण हेतु  
यौगिक का नाम उक्त रूप से दिया जाता है।

ऐल्डहाइडों एवं कीटोनों के कुछ सामान्य एवं आईयूपीएसी ( IUPAC ) नामों को सारणी 8.1 में दिया गया है—  
सारणी 8.1— ऐल्डहाइडों व कीटोनों के सामान्य और IUPAC नाम


| संरचना   | सामान्य नाम                                   | आई.यू.पी.ए.सी. नाम   |
|--|---|--|
| ऐल्डहाइड   |   |  |
| HCHO   | फार्मेलिडहाइड                                 | मेथेनैल  |
| CH <sub>3</sub> CHO  | ऐसीटैलिडहाइड                                  | ऐथेनैल   |
| (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCHO  | आइसोब्यूटिरऐल्डहाइड                           | 2-मेथिलप्रोपेनैल   |
|  | γ-मेथिलसाइक्लोहेक्सेनकार्बॉलिडहाइड            | 3-मेथिलसाइक्लोहेक्सेनकार्बॉलिडहाइड                         |
| CH <sub>3</sub> CH(OCH <sub>3</sub> )CHO   | α-मेथॉक्सीप्रोपिअॉनलिडहाइड                    | 2-मेथॉक्सीप्रोपेनैल  |
| CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CHO<br>CH <sub>2</sub> =CHCHO  | वैलरेलिडहाइड<br>ऐक्रोलीन                      | पेन्टेनैल<br>प्रोप-2-इनैल                                  |
|  | थैलैलिडहाइड                                   | बेन्जीन-1,2-डाइकार्बॉलिडहाइड                               |
|  | m-ब्रोमोबेन्जैलिडहाइड                         | 3-ब्रोमोबेन्जैलिडहाइड अथवा<br>3-ब्रोमोबेन्जीनकार्बॉलिडहाइड |
| कीटोन  |   |  |
| CH <sub>3</sub> COCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub><br>(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCOCH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> | मेथिल-n-प्रोपिल कीटोन<br>डाइआइसोप्रोपिल कीटोन | पेन्टेन-2-ऑन<br>2,4-डाइमेथिलपेन्टेन-3-ऑन                   |
|  | α-मेथिलसाइक्लोहेक्सेनोन                       | 2-मेथिलसाइक्लोहेक्सेनोन                                    |
| (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> C=CHCOCH <sub>3</sub>  | मेसिटिल ऑक्साइड                               | 4-मेथिलपेन्ट-3-इन-2-ऑन                                     |

## 8.1.2 कार्बोनिल समूह की संरचना

कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु  $sp^2$  संकरित अवस्था में होता है तथा तीन सिग्मा (σ) आबंध निर्मित करता है। कार्बन का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन कार्बन के असंकरित  $p$ -कक्षक में होता है तथा ऑक्सीजन के  $p$ -कक्षक के साथ अतिव्यापन करके एक  $\pi$  आबंध बनाता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर दो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युगल उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कार्बोनिल समूह का कार्बन तथा इससे आबंधित तीन परमाणु एक ही तल में होते हैं एवं  $\pi$  इलेक्ट्रॉन अभ्र इस तल के ऊपर एवं नीचे होता है। बंधक कोण लगभग  $120^\circ$  का होता है जैसा कि समतलीय त्रिकोणीय संरचना में अपेक्षित है (चित्र 8.1)।



चित्र 8.1— कार्बोनिल समूह निर्माण का कक्षीय आरेख



कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युतऋणात्मकता उच्च होने के कारण कार्बन-ऑक्सीजन द्विक आबंध ध्रुवित हो जाता है। अतः कार्बोनिल समूह का कार्बन एक इलेक्ट्रॉनरागी (लूइस अम्ल) केंद्र और कार्बोनिल ऑक्सीजन एक नाभिकरागी (लूइस क्षारक) केंद्र होता है। कार्बोनिल यौगिकों में पर्याप्त द्विध्रुव आधूनिक होता है और ये ईंथर से अधिक ध्रुवीय होते हैं। कार्बोनिल समूह की उच्च ध्रुवता, अनुनाद के आधार पर समझाई जा सकती है, जिसमें एक उदासीन संरचना (क) एवं एक द्विध्रुव संरचना (ख) है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है।

### पाठ्यनिहित प्रश्न

#### 8.1 निम्न यौगिकों की संरचना लिखिए—

- (i)  $\alpha$ -मेर्थोक्सीप्रोपिओऑनेलिडहाइड
- (ii) 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनैल
- (iii) 2-हाइड्रॉक्सीसाइक्लोपेन्टेन कार्बोलिडहाइड
- (iv) 4-ऑक्सोपेन्टैनैल
- (v) डाइ-द्वितीयकब्यूटिल कीटोन
- (vi) 4-क्लोरोऐसीटोफीनैन

## 8.2 ऐल्डहाइडों दुवं कीटोनों का विरचन

ऐल्डहाइडों एवं कीटोनों के विरचन की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ इस प्रकार हैं—

### 8.2.1 ऐल्डहाइडों एवं कीटोनों का विरचन

#### 1. ऐल्कोहॉलों के ऑक्सीकरण से

सामान्यतः ऐल्डहाइड एवं कीटोन क्रमशः प्राथमिक व द्वितीयक ऐल्कोहॉलों के ऑक्सीकरण से बनाए जाते हैं (एकक 7, कक्षा 12)।

#### 2. ऐल्कोहॉलों के विहाइड्रोजन से

यह विधि वाष्पशील ऐल्कोहॉलों के लिए उचित होती है तथा यह एक औद्योगिक अनुप्रयोग की विधि है। इस विधि में ऐल्कोहॉल के वाष्प को तप्त भारी-धातु उत्प्रेरक (सिल्वर अथवा कॉपर) के ऊपर से प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक व द्वितीयक ऐल्कोहॉल क्रमशः ऐल्डहाइड व कीटोन देते हैं (एकक 7 कक्षा 12)।

### 3. हाइड्रोकार्बन से


(i) ऐल्कीनों के ओज़ोनी अपघटन से- जैसा कि हम जानते हैं ऐल्कीनों के ओज़ोनी अपघटन के पश्चात् प्राप्त उत्पाद की जिंक धूल व जल के साथ अभिक्रिया के द्वारा ऐल्डहाइड या कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जो ऐल्कीन में उपस्थित प्रतिस्थापन के प्रकार पर निर्भर करता है। (एकक-9, कक्षा-11)

( ii ) ऐल्काइनों के जलयोजन से-  $H_2SO_4$  एवं  $HgSO_4$  की उपस्थिति में एथाइन में जलयोजन द्वारा ऐसीटैलिडहाइड प्राप्त होता है। अन्य सभी ऐल्काइनें इस अभिक्रिया द्वारा कीटोन प्रदान करती हैं। (एकक-9, कक्षा-11)

## 8.2.2 ऐल्डिहाइडों का विरचन

#### 1. ऐसिल क्लोराइड से ( अम्ल क्लोराइड )

ऐसिल क्लोराइड (अम्ल क्लोराइड) के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजनन से ऐल्डहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को रोज़ेनमुंड अपचयन (Rosenmund Reduction) कहते हैं।





## 2. नाइटाइल एवं एस्टर से

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोइल स्टैनस क्लोराइड द्वारा संगत इमीन में अपचित हो जाते हैं। जो जलअपघटन करने पर संगत ऐल्डहाइड देते हैं।




यह अभिक्रिया स्टीफैन अभिक्रिया (Stephen Reaction) कहलाती है।

वैकल्पिक अभिक्रिया में नाइट्रोइल को डाइआइसोब्यूटिलऐलुमिनियम हाइड्राइड (DIBAL-H) द्वारा चयनित अपचयन से इमीन में बदल लेते हैं एवं तत्पश्चात् इसके जलअपघटन से ऐल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है।



इसी प्रकार से एस्टर भी DIBAL-H द्वारा ऐलिडहाइड में अपचित हो जाते हैं।




### 3. हाइड्रोकार्बन से

ऐरोमैटिक ऐल्डहाइड (बेन्ज़ैल्डहाइड व इसके व्युत्पन्न) ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं—

(i) मेथिल बेन्जीन के ऑक्सीकरण द्वारा— प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक टॉल्यूइन व इसके व्युत्पन्नों को बेन्जोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस ऑक्सीकरण

को उपयुक्त अभिकर्मकों द्वारा ऐलिड्हाइड चरण में ही रोकना संभव है। यह मेथिल समूह को एक मध्यवर्ती में परिवर्तित कर देते हैं जिसे पुनः ऑक्सीकृत करना कठिन होता है। इसके लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है—

(क) क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से— क्रोमिल क्लोराइड ( $\text{CrO}_2\text{Cl}_2$ ) मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है जो जल अपघटन द्वारा संगत बेन्ज़ैलिडहाइड बनाता है।



यह अभिक्रिया ईटार्ड अभिक्रिया (Etard Reaction) कहलाती है।


( ख ) क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से ( $\text{CrO}_3$ )—टॉल्बूइन या प्रतिस्थापित टॉल्बूइन को ऐसीटिक एनहाइड्राइड में क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अभिकृत कराने पर बेन्जिलिडीन डाइऐसीटेट प्राप्त होता है। बेन्जिलिडीन डाइऐसीटेट जलीय अम्ल के साथ जल अपघटित होकर संगत बेन्जैलिडहाइड बनाता है।



( ii ) पाश्वर्ष शृंखला के क्लोरीनन के पश्चात् जल अपघटन— टॉल्झून पाश्वर्ष शृंखला क्लोरीनन द्वारा बेन्जल क्लोराइड देती है, जो जल अपघटन द्वारा बेन्जैलिडहाइड बनाता है। यह बेन्जैलिडहाइड के औद्योगिक उत्पादन की विधि है।



(iii) गाटरमान-कॉख अभिक्रिया से— जब बेन्जीन या इसके व्युत्पन्न निर्जल ऐलुमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं, तो बेन्जैलिडहाइड या प्रतिस्थापित बेन्जैलिडहाइड प्राप्त होते हैं।





यह अभिक्रिया गाटरमान-कॉख अभिक्रिया ( Gatterman-Koch Reaction ) कहलाती है।

### 8.2.3 कीटोनों का विरचन


#### 1. ऐसिल क्लोराइड से

ग्रीन्यार अभिकर्मक तथा कैडमियम क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त डाइऐलिकलकैडमियम की ऐसिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर कीटोन प्राप्त होते हैं।



#### 2. नाइट्रोइल से

नाइट्रोइल व ग्रीन्यार अभिकर्मक की क्रिया से प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने से कीटोन प्राप्त होते हैं।



3. बेन्जीन या प्रतिस्थापित बेन्जीन से- निर्जल ऐलुमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेन्जीन या प्रतिस्थापित बेन्जीन, अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर संगत कीटोन देते हैं। यह अभिक्रिया फ्रीडेल-क्राफ्ट्स ऐसीटिलन अभिक्रिया (Friedal-Craft's Acylation reaction) कहलाती हैं।



#### उदाहरण 8.1

निम्नलिखित रूपांतरणों को करने के लिए अभिकर्मकों के नाम बताइए—


- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| (i) हेक्सेन-1-ऑल से हेक्सेनैल                                       | (iv) ऐथेन नाइट्रोइल से ऐथेनैल  |
| (ii) साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनोन                           | (v) ऐलिल ऐल्कोहॉल से प्रोपिनैल |
| (iii) <i>p</i> -फ्लुओरोरॉट्युलुइन से <i>p</i> -फ्लुओरोबेन्जैलिडहाइड | (vi) ब्यूट-2-इन से ऐथेनैल      |

हल

- |  |   |
|--|---|
| (i) $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+ \text{CrO}_3\text{Cl}^-$ (PCC)  | (v) पीसीसी                                      |
| (ii) एन्हाइड्रस $\text{CrO}_3$   | (vi) $\text{O}_3/\text{H}_2\text{O}$ -ज़िंक धूल |
| (iii) $\text{CrO}_3(\text{CH}_3\text{CO})_2$ की उपस्थिति में /<br>1. $\text{CrO}_2\text{Cl}_2$ 2. $\text{HOH}$ |   |
| (iv) डाइआइसोब्युटिलऐलुमिनियमहाइड्राइड (DIBAL-H)  |   |

## पाद्यनिहित प्रश्न

**8.2** निम्न अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना लिखिए—




## 8.3 ભૌતિક શુણાર્થર્મ

कक्ष ताप पर मंथेनैल गैस के रूप में होती है, एथेनैल एक वाष्पशील द्रव है। अन्य ऐलिडहाइड एवं कीटोन कक्ष तापक्रम पर द्रव या ठोस होते हैं। ऐलिडहाइडों व कीटोनों के क्वथनांक समतुल्य आण्विक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों और ईथरों से अधिक होते हैं। यह ऐलिडहाइडों एवं कीटोनों में द्विध्रुव - द्विध्रुव आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न दुर्बल आण्विक संगुणन के कारण होते हैं। इनके क्वथनांक भी समतुल्य आण्विक द्रव्यमान वाले ऐल्कोहॉलों से अंतराआण्विक हाइड्रोजन आबंध अनुपस्थित होने के कारण कम होते हैं। इन्ह यौगिकों को, जिनका आण्विक द्रव्यमान 58 और 60 है, क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है।


| क्वथनांक (K) | आणिक द्रव्यमान |
|--------------|----------------|
| n-ब्यूटन     | 58             |
| मेथॉक्सीएथेन | 60             |
| प्रोपैनैल    | 58             |
| ऐसीटोन       | 58             |
| प्रोपैन-1-ऑल | 60             |

ऐल्डहाइडों व कीटोनों के निम्नतर सदस्य जैसे मेथेनैल, एथेनैल एवं प्रोपेनोन जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण प्रत्येक अनुपात में जल में मिश्रणीय होते हैं।



परंतु जैसे-जैसे ऐलिकल श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, इनकी घुलनशीलता तेज़ी से घटती जाती है। सभी ऐलिडहाइड व कीटोन सभी कार्बनिक विलायकों जैसे— बेन्जीन, ईथर, मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में सुगमतापूर्वक घुलनशील होते हैं। निम्नतर ऐलिडहाइड में तीक्ष्ण गंध होती हैं। जैसे-जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाता है गंध कम तीक्ष्ण होती जाती है तथा सुगंध बढ़ती जाती है। वास्तव में प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक ऐलिडहाइडों व कीटोनों का उपयोग सुगंध व सुरुचि कर्मकों के सम्मिश्रण में किया जाता है।

### उदाहरण 8.2 निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए—



**हल**

यौगिकों के आण्विक द्रव्यमान 72 से 74 के परास में हैं। क्योंकि केवल ब्यूटेन-1-ऑल ही अत्यधिक अंतराआण्विक हाइड्रोजन आबंधन के कारण संगुणित द्रव है, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। ब्यूटैनैल, एथॉक्सीएथेन से अधिक ध्रुवीय है अतः ब्यूटैनैल में अंतराआण्विक द्विध्रुव आकर्षण प्रबल होता है। *n*-पेन्टेन में केवल दुर्बल वांडरवाल्स बल होते हैं, अतः दिए गए यौगिकों के क्वथनांक बढ़ते क्रम में इस प्रकार होंगे—



### पाद्यनिहित प्रश्न

#### 8.3 निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।




## 8.4 रसायनिक अभिक्रियाएँ

ऐल्डहाइड एवं कीटोन, दोनों में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह विद्यमान हैं अतः ये एक समान रसायनिक अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं।

#### 1. नाभिकरागी योगज अभिक्रिया

ऐल्कीनों में जैसी इलेक्ट्रॉनरागी योगज अभिक्रियाएँ देखी जाती हैं, (एकक-9, कक्षा-11) उसके विपरीत ऐल्डहाइड व कीटोन नाभिकरागी योगज अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं।

(i) नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं की क्रियाविधि— नाभिकरागी ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉनरागी कार्बन पर उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनिल कार्बन के  $sp^2$  संकरित कक्षकों के तल के लगभग लंब पर होती है (चित्र 8.2)। इस प्रक्रिया में कार्बन की संकरण अवस्था  $sp^2$  से  $sp^3$  हो जाती है तथा चतुष्फलकीय ऐल्कॉक्साइड मध्यवर्ती बनता है। यह मध्यवर्ती अभिक्रिया माध्यम से एक प्रोटॉन प्राप्त करके विद्युत् उदासीन उत्पाद देता है। कुल परिणाम कार्बन-ऑक्सीजन द्विक आबंध पर  $\text{Nu}^-$  व  $\text{H}^+$  का योगज होता है। जैसा चित्र 8.2 में दर्शाया गया है।



चित्र 8.2— कार्बोनिल कार्बन पर नाभिकरागी आक्रमण


(ii) अभिक्रियाशीलता— इलेक्ट्रॉनिक व त्रिविम प्रभावों के कारण नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं में ऐल्डहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। त्रिविम रूप से नाभिकरागी के कार्बोनिल कार्बन तक पहुँचने में कीटोनों में उपस्थित दो सापेक्षिक बड़े प्रतिस्थापी समूह ऐल्डहाइडों की अपेक्षा अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं, जिनमें केवल एक ही ऐसा प्रतिस्थापी उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐल्डहाइड कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि कीटोन में उपस्थित दो ऐल्किल समूह कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉनरागी प्रकृति को ऐल्डहाइड की तुलना में कम कर देते हैं।

### उदाहरण 8.3

नाभिकरागी योगज अभिक्रिया में बेन्जैल्डहाइड प्रोपेनैल से कम अभिक्रियाशील होगा अथवा अधिक, आप क्या अपेक्षा करेंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।

**हल**


बेन्जैल्डहाइड में कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु प्रोपेनैल के कार्बोनिल समूह के कार्बन की




तुलना में कम इलेक्ट्रॉनरागी होता है। बेन्जैल्डहाइड में अनुनाद के कारण कार्बोनिल समूह की ध्रुवता कम हो जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है अतः यह प्रोपेनैल से कम अभिक्रियाशील होता है।

(iii) नाभिकरागी योगज और नाभिकरागी योगज-विलोपन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण—

(क) हाइड्रोजन सायनाइड (**HCN**) का संयोजन— ऐल्डहाइड व कीटोन हाइड्रोजन सायनाइड से (**HCN**) अभिकृत होकर संगत सायनोहाइड्रिन देते हैं। शुद्ध HCN के साथ यह अभिक्रिया बहुत धीमी होती है; अतः यह क्षार द्वारा उत्प्रेरित की जाती है और जनित सायनाइड आयन प्रबल नाभिकस्नेही (**CN<sup>-</sup>**) कार्बोनिल यौगिकों पर संयोजित होकर संगत सायनोहाइड्रिन देते हैं। सायनोहाइड्रिन उपयोगी संश्लेषित मध्यवर्ती होते हैं।




(ख) सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन— ऐल्डहाइड एवं कीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट के साथ संयुक्त होकर योगज उत्पाद देते हैं। त्रिविमीय प्रभाव के कारण साम्यावस्था की स्थिति अधिकांश ऐल्डहाइडों के लिए दाईं ओर तथा अधिकतर कीटोनों के लिए बाईं ओर होती है। हाइड्रोजन सल्फाइट योगज उत्पाद जल में अविलेय होता है, जो तनु खनिज अम्लों अथवा क्षार के साथ अभिक्रिया कर पुनः मूल कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए यह ऐल्डहाइडों के पृथक्करण व परिष्करण के लिए उपयोगी होते हैं।




(ग) ग्रन्थार अभिकर्मकों का संयोजन (देखिए एकक 7, कक्षा 12)

(घ) ऐल्कोहॉलों का संयोजन— ऐल्डहाइड, मोनोहाइड्रिक ऐल्कोहॉल की एक तुल्यांक मात्रा के साथ शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर



ऐल्कॉक्सी ऐल्कोहॉल मध्यवर्ती बनाते हैं, जिन्हें हेमीएसीटैल कहते हैं। यह पुनः एक मोल ऐल्कोहॉल से अभिक्रिया कर जैम-डाइऐल्कॉक्सी यौगिक बनाते हैं, जिन्हें ऐसीटैल कहते हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।




कीटेन इन्हीं अभिक्रिया परिस्थितियों में एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय उत्पाद बनाते हैं, जिसे एथिलीन ग्लाइकॉल कीटेल कहते हैं।

शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बोनिल समूह की

ऑक्सीजन को प्रोटॉनीकृत करती है, जिससे कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉनरागी प्रवृत्ति बढ़ती है जो एथिलीन ग्लाइकॉल पर नाभिकरागी आक्रमण को सरल बनाती है। ऐसीटैल व कीटेल जलीय खनिज अम्लों के साथ जलअपघटित होकर क्रमशः संगत ऐल्डहाइड व कीटोन देते हैं।

( च ) अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन— अमोनिया व इसके व्युत्पन्न  $\text{H}_2\text{N-Z}$



जैसे नाभिकरागी ऐल्डहाइड व कीटोन के कार्बोनिल समूह पर जुड़ते हैं। यह अभिक्रिया उत्कमणीय होती है तथा अम्ल से उत्स्फ्रित होती है। मध्यवर्ती के द्रुत निर्जलीकरण द्वारा  $\text{>C=N-Z}$  बनने के कारण साम्यावस्था उत्पाद को बनाने में सहायक होती है।



सारणी 8.2- ऐल्डहाइडों व कीटोनों ( $\text{>C=N-Z}$ )- के कुछ N- प्रतिस्थापित व्युत्पन्न

| Z                | अभिकर्मक का नाम                             | कार्बोनिल व्युत्पन्न        | उत्पाद                           |
|------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|
| —H               | अमोनिया                                     | $\text{>C=NH}$              | इमीन                             |
| —R               | ऐमीन  | $\text{>C=NR}$              | प्रस्थापित इमीन<br>(शिफ क्षारक)  |
| —OH              | हाइड्रॉक्सिल ऐमीन                           | $\text{>C=N-OH}$            | आॉक्सिम                          |
| —NH <sub>2</sub> | हाइड्रैजीन                                  | $\text{>C=N-NH}_2$          | हाइड्रैजोन                       |
|                  | फेनिल हाइड्रैजीन                            | $\text{>C=N-NH-}$           | फेनिलहाइड्रैजोन                  |
|                  | 2, 4-डार्नाइट्रोफेनिल हाइड्रैजीन (2,4-DNP)* | $\text{>C=N-NH-}$           | 2, 4 डार्नाइट्रो-फेनिलहाइड्रैजोन |
|                  | सेमीकार्बोज्याइड                            | $\text{>C=N-NH-C(=O)-NH}_2$ | सेमीकार्बोज्योन                  |

\* 2,4-DNP व्युत्पन्न पीले, नारंगी या लाल ठोस होते हैं, जो ऐल्डहाइड व कीटोन के अभिलक्षण में उपयोगी हैं।

## 2. अपचयन

- (i) ऐक्लोहॉलों में अपचयन— सोडियम बोरोहाइड्राइड ( $\text{NaBH}_4$ ) अथवा लीथियम ऐलुमिनियम हाइड्राइड ( $\text{LiAlH}_4$ ) या उत्प्रेरकी हाइड्रोजेन द्वारा ऐल्डहाइड कीटोन अपचित होकर क्रमशः प्राथमिक तथा द्वितीयक ऐल्कोहॉल देते हैं (एकक 7, कक्षा 12)।
- (ii) हाइड्रोकार्बनों में अपचयन— ऐल्डहाइड एवं कीटोनों का कार्बोनिल समूह अमलगमित जिक एवं सांद्र हाइड्रॉक्लोरिक अम्ल द्वारा अभिक्रिया से, (क्लीमेन्सन अपचयन) या हाइड्रैजीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद, ऐथिलीन ग्लाइकॉल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम या पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गरम करने पर  $-\text{CH}_2$  समूह में परिवर्तित हो जाता है (वोल्फ-किशनर अपचयन)।




बर्नार्ड टॉलेन्स (1841-1918)  
गौटिनोन विश्वविद्यालय, जर्मनी में  
रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे।

## 3. ऑक्सीकरण

ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऐल्डहाइड कीटोन से भिन्न व्यवहार करते हैं। ऐल्डहाइड सामान्य ऑक्सीकारकों— जैसे, नाइट्रिक अम्ल, पोटैशियम परमैग्नेट, पोटैशियम डाइक्रोमेट आदि के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। यहाँ तक की मृदु ऑक्सीकरण कर्मक मुख्यतया टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन भी ऐल्डहाइडों को ऑक्सीकृत कर देते हैं।



कीटोनों का ऑक्सीकरण सामान्यतः प्रबल परिस्थितियों, जैसे— प्रबल ऑक्सीकरण कर्मकों और उच्च ताप पर होता है। इनके ऑक्सीकरण में कार्बन-कार्बन आबंध का विदलन होता है, जिससे अनेक कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, मूल कार्बोनिल यौगिक के कार्बन परमाणुओं से कम होती है।




नीचे दिए गए मृदु ऑक्सीकरण कर्मक ऐल्डहाइडों और कीटोनों में विभेद करने के लिए प्रयुक्त होते हैं—


- (i) टॉलेन-परीक्षण— ऐल्डहाइड को ताजा बने अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट विलयन (टॉलेन अभिकर्मक) के साथ गर्म करने पर सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। ऐल्डहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है।



( ii ) फेलिंग-परीक्षण— फेलिंग अभिकर्मक में दो विलयन फेलिंग विलयन A व फेलिंग विलयन B होते हैं। फेलिंग विलयन A जलीय कॉपर सल्फेट तथा फेलिंग विलयन B सोडियम पोटैशियम टार्ट्रेट (रोशेल लवण) होता है। परीक्षण से पूर्व दोनों विलयन समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। ऐल्डहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर लाल-भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ऐल्डहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऐरोमैटिक ऐल्डहाइड इस परीक्षण के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते।



( iii ) मेथिल कीटोन का हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण— ऐसे कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल कार्बन परमाणु से आबंधित होता है (मेथिल कीटोन), सोडियम हाइपोहैलाइट द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसमें कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है। मेथिल समूह हैलाफॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि अणु में कार्बन-कार्बन द्विकाबंध उपस्थित हो तो वह इस ऑक्सीकरण द्वारा अप्रभावित रहता है।




सोडियम हाइपोआयोडाइट द्वारा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, भी CH<sub>3</sub>CO या CH<sub>3</sub>CH(OH) समूह की पहचान करने के लिए प्रयुक्त होती है, जो ऑक्सीकरण द्वारा CH<sub>3</sub>CO समूह बनाती है।

**उदाहरण 8.4** एक कार्बनिक यौगिक (A) जिसका आण्विक सूत्र C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O है, 2, 4-डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रैजीन (2, 4 डी.एन.पी.) अभिकर्मक के साथ नारंगी-लाल अवक्षेप प्रदान करता है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। यह यौगिक टॉलेन-अभिकर्मक अथवा फेलिंग-विलयन को अपचित नहीं करता और न ही यह ब्रोमीन जल अथवा बेर्य-अभिकर्मक को वर्णविहीन करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल (B) बनाता है जिसका आण्विक सूत्र C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub> है। यौगिक (A) व (B) को पहचानिए एवं प्रयुक्त अभिक्रियाओं को समझाइए।

**हल** यौगिक (A) 2, 4-डी.एन.पी. व्युत्पन्न निर्मित करता है। अतः यह यौगिक कोई ऐल्डहाइड अथवा कीटोन है। चूँकि यह टॉलेन अभिकर्मक अथवा फेलिंग विलयन को अपचित नहीं करता, इसलिए यौगिक A एक कीटोन ही होना चाहिए। यौगिक A आयोडोफॉर्म परीक्षण देता

है। अतः यह मेथिल कीटोन ही होना चाहिए। यौगिक (A) का आण्विक सूत्र संकेत देता है कि यह अत्यधिक असंतृप्त है। परंतु फिर भी यह ब्रोमीन जल अथवा बेयर अभिकर्मक को वर्णविहीन नहीं करता। इससे प्रदर्शित होता है कि असंतृप्तता ऐरोमेटिक वलय के कारण है।


यौगिक B एक कीटोन का ऑक्सीकरण उत्पाद है, अतः यह कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए। यौगिक B का आण्विक सूत्र यह दर्शाता है कि यह बेन्जोइक अम्ल होना चाहिए। अतः यौगिक (A) एक मोनोप्रतिस्थापित ऐरोमैटिक मेथिल कीटोन होना चाहिए। यौगिक (A) का आण्विक सूत्र यह दर्शाता है कि यह फेनिलमेथिलकीटोन (ऐसीटोफीनोन) होना चाहिए। अभिक्रियाएं निम्नप्रकार से होंगी—





#### 4. $\alpha$ -हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएँ

ऐल्डहाइड व कीटोन के  $\alpha$ -हाइड्रोजन परमाणुओं की अम्लता-ऐल्डहाइड व कीटोन  $\alpha$ -हाइड्रोजन की अम्लता के कारण कई अभिक्रियाएँ देते हैं।

कार्बोनिल यौगिकों के  $\alpha$ -हाइड्रोजन परमाणुओं की अम्लता कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन अपनयन कर लेने (खींच लेने) के प्रबल प्रभाव तथा संयुग्मी क्षार के अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है।




- (i) **ऐल्डोल संघनन**— जिन ऐल्डहाइडों व कीटोनों में कम से कम एक  $\alpha$ -हाइड्रोजन विद्यमान होती है, वे तनु क्षार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमशः  $\beta$ -हाइड्रॉक्सी ऐल्डहाइड (एल्डोल) अथवा  $\beta$ -हाइड्रॉक्सी कीटोन (कीटोल) प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को ऐल्डोल अभिक्रिया कहते हैं।




उत्पाद में विद्यमान दो प्रकार्यात्मक समूहों, ऐलिडहाइड व ऐल्कोहॉल के नामों से ऐल्डोल का नाम व्युत्पन्न होता है। ऐल्डोल व कीटोल आसानी से जल निष्कासित करके  $\alpha$ ,  $\beta$ -असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक देते हैं, जो ऐल्डोल संघनन उत्पाद हैं और यह अभिक्रिया ऐल्डोल संघनन कहलाती है। यद्यपि कीटोन, कीटोल (कीटो व ऐल्कोहॉल समूह युक्त यौगिक) निर्मित करते हैं फिर भी उनकी ऐलिडहाइडों के साथ समानता होने के कारण उनकी अभिक्रिया के लिए भी सामान्य नाम ऐल्डोल संघनन ही प्रयोग किया जाता है—

( ii ) क्रॉस ऐल्डोल संघनन— जब दो भिन्न-भिन्न ऐल्डहाइड और/या कीटोन के मध्य ऐल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस ऐल्डोल संघनन कहते हैं। यदि प्रत्येक में  $\alpha$ -हाइड्रोजन हो तो ये चार उत्पादों का मिश्रण देते हैं। इसे नीचे एथेनैल व प्रोपैनैल के मिश्रण की ऐल्डोल संघनन अभिक्रिया द्वारा समझाया गया है।





क्रॉस ऐल्डोल संघनन में कीटोन भी एक घटक के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं।




1, 3-डाईफेनिलप्रोप-2-ईन-1-ओन  
(बेंज़ैलएसीटोफीनॉन), मुख्य उत्पाद

## 5. अन्य अभिक्रियाएँ

(i) कैनिजारो अभिक्रिया—ऐल्डहाइड, जिनमें  $\alpha$ -हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते सांद्र क्षार की उपस्थिति में गरम करने से स्वॉक्सीकरण व अपचयन (असमानुपातन) की अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में ऐल्डहाइड का एक अणु ऐल्कोहॉल में अपचयन होता है जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में आक्सीकृत हो जाता है।






( ii ) इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया – ऐरोमेटिक एलिडहाइड व कीटोन उस बेन्जीन वलय पर इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कार्बोनिल समूह निष्क्रियक तथा मेट्यु-निर्देशक होता है।



पाठ्यनिहित प्रश्न

- 8.4** निम्नलिखित यौगिकों को नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं में उनकी बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए—  
 (क) एथेनैल, प्रोपेनैल, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन  
 (ख) बेन्जैल्डहाइड, p-टॉलूएल्डहाइड, p-नाइट्रोबेन्जैल्डहाइड, ऐसीटोफीनोन  
 संकेत—त्रिविम प्रभाव व इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को ध्यान में रखें।

**8.5** निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों को पहचानिए—



## 8.5 ऐलिडहाइडों उवं कीटोनों के उपयोग

रसायनिक उद्योग में ऐलिडहाइड एवं कीटोन अन्य उत्पादों के संश्लेषण के लिए विलायक, प्रारंभिक पदार्थ और अभिकर्मकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फार्मेलिडहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन के नाम से सुप्रसिद्ध है जो जैविक प्रतिदर्शों के परिरक्षण में तथा बैकालाइट के विरचन में (फ़ीनॉलफार्मेलिडहाइड रेज़िन), यूरिया फार्मेलिडहाइड सरेस तथा अनेक बहुलक उत्पादों में उपयोग होता है। ऐसीटैलिडहाइड मुख्यतः ऐसीटिक अम्ल, एथिल ऐसीटेट, वाइनिल ऐसीटेट बहुलकों एवं औषधों के उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। बेन्जैलिडहाइड का उपयोग सुगंध तथा रंजक उद्योग में किया जाता है। ऐसीटोन और एथिलमेथिल कीटोन सामान्य औद्योगिक विलायक हैं। कई ऐलिडहाइड एवं कीटोन, जैसे— ब्यूटैरलिडहाइड, वेनेलिन, ऐसीटोफीनोन, कपूर आदि अपनी सुगंध और सुरुचिकर प्रभाव के लिए सुप्रसिद्ध हैं।

### कार्बोक्सिलिक अम्ल

ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक,  $-COOH$  प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोनिल समूह एक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जुड़ा रहता है, अतः इसका नाम कार्बोक्सिल है। कार्बोक्सिलिक समूह से संयुक्त ऐलिकल या ऐरिल समूह के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐलिफैटिक ( $RCOOH$ ) अथवा ऐरोमैटिक अम्ल ( $ArCOOH$ ) होते हैं। प्रकृति में कार्बोक्सिलिक अम्ल अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। कुछ ऐलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के उच्च सदस्य ( $C_{12}-C_{18}$ ), जिन्हें वसा अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक वसाओं में गिलसराँल के एस्टर के रूप में पाए जाते हैं; अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों, जैसे— एनहाइड्राइड, एस्टर, ऐसिड क्लोराइड और ऐमाइडों के संश्लेषण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

## 8.6 कार्बोक्सिलिक शमूह की नामपद्धति व संरचना




### 8.6.1 नामपद्धति

कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकृति से प्रारंभिक दौर में विलगित किए गए यौगिकों में से हैं, अतः इनमें से बहुत से सामान्य नामों से जाने जाते हैं। सामान्य नाम प्राकृतिक स्रोतों के लेटिन अथवा ग्रीक नामों से व्युत्पन्न होते हैं। और अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में अनुलग्न (-ic) इक ऐसिड लगाते हैं, उदाहरणार्थ— फार्मिक ऐसिड या अम्ल, ( $HCOOH$ ) सर्वप्रथम लाल चीटियों से (लेटिन-फार्मिका का अर्थ चीटियाँ), ऐसीटिक अम्ल सिरके से (लेटिन-ऐसीटम का अर्थ सिरका), ब्यूटेरिक अम्ल ( $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$ ) विकृतगंधी मक्खन से (लैटिन-ब्यूटिरम का अर्थ मक्खन) प्राप्त किया गया।

आईयूपीएसी (IUPAC) पद्धति में ऐलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण करने के लिए संगत ऐल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में स्थित (-e) के स्थान पर ओइक (-oic) अनुलग्न लगाया जाता है। कार्बन शृंखला का अंकन करते समय कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन परमाणु को प्रथम संख्या (संख्या 1) प्रदान की जाती है। एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों का नाम लिखने के लिए कार्बोक्सिलिक समूह हटाकर बची संगत ऐल्केन की कार्बन शृंखला के कार्बनों का अंकन करते हैं और कार्बोक्सिल समूहों की स्थिति सहित उनकी संख्या गुणात्मक पूर्वलग्न डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल इत्यादि को


मूल एल्किल शृंखला के नाम के आगे जोड़ दिया जाता है। -COOH समूह की स्थिति गुणात्मक पूर्वलग्न से पहले अरेबिक संख्या में लिख कर दर्शाई जाती है। कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य और आईयूपीएसी नाम सारणी 8.3 में दर्शाए गए हैं।

### सारणी 8.3— कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम एवं संरचना

| संरचना  | सामान्य नाम                           | आईयूपीएसी नाम                             |
|---|---------------------------------------|---|
| HCOOH   | फार्मिक अम्ल                          | मेथेनॉइक अम्ल                             |
| CH <sub>3</sub> COOH  | ऐसीटिक अम्ल                           | एथेनॉइक अम्ल                              |
| CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> COOH  | प्रोपिओनिक अम्ल                       | प्रोपेनॉइक अम्ल                           |
| CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -COOH                             | ब्यूटाइरिक अम्ल                       | ब्यूटेनॉइक अम्ल                           |
| (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCOOH  | आइसोब्यूटाइरिक अम्ल                   | 2-मैथिलप्रोपेनॉइक अम्ल                    |
| HOOC-COOH   | आॉक्साइलिक अम्ल                       | एथेनडाईओइक अम्ल                           |
| HOOC -CH <sub>2</sub> -COOH   | मेलोनिक अम्ल                          | प्रोपेनडाईओइक अम्ल                        |
| HOOC -(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -COOH   | सक्सीनिक अम्ल                         | ब्यूटेनडाईओइक अम्ल                        |
| HOOC -(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -COOH   | ग्लूटेरिक अम्ल                        | पेन्टेनडाईओइक अम्ल                        |
| HOOC -(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -COOH   | एडिपिक अम्ल                           | हेक्सेनडाईओइक अम्ल                        |
| HOOC -CH <sub>2</sub> -CH(COOH)-CH <sub>2</sub> -COOH                               | ट्राइकार्बेलिक अम्ल या कार्बेलिक अम्ल | प्रोपेन-1,2,3-ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल     |
|   | बेन्जोइक अम्ल                         | बेन्जीनकार्बोक्सिलिक अम्ल (बेन्जोइक अम्ल) |
|  | फेनिलऐसीटिक अम्ल                      | 2-फेनिलएथेनॉइक अम्ल                       |
|  | थैलिक अम्ल                            | बेन्जीन-1, 2-डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल        |




### 8.6.2 कार्बोक्सिल समूह की संरचना

कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोक्सिल कार्बन से संयुक्त सभी आबंध एक ही तल में होते हैं तथा एक-दूसरे से 120° के कोण द्वारा विलगित रहते हैं। कार्बोक्सिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन से निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं के कारण कम इलेक्ट्रानरागी होता है—



### पादयनिहित प्रश्न

#### 8.6 निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दीजिए—





## 8.7 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ

कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ निम्नलिखित हैं—

### 1. प्राथमिक ऐल्कोहॉल व ऐल्डिहाइड से


प्राथमिक ऐल्कोहॉल सामान्य ऑक्सीकरण कर्मकों, जैसे- उदासीन, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में पोटैशियम परमैग्नेट अथवा अम्लीय माध्यम में पोटैशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड द्वारा आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं।



मृदु आक्सीकरण कर्मकों के उपयोग से ऐल्डिहाइड द्वारा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किए जाते हैं (खंड 8.4)।




### 2. ऐल्किल बेन्जीनों से

ऐरोमैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐल्किल बेन्जीनों के क्रोमिक अम्ल अथवा क्षारीय  $\text{KMnO}_4$  द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से विरचित किए जा सकते हैं। संपूर्ण पार्श्व शृंखला चाहें किसी भी लंबाई की हो, ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिल समूह निर्मित करती है। प्राथमिक व द्वितीयक ऐल्किल समूह भी इसी प्रकार से ऑक्सीकृत होते हैं जबकि तृतीयक समूह प्रभावित नहीं होता। उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित ऐल्कीन भी इन ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न करती हैं। (एकक-9, कक्षा-11)




### 3. नाइट्रोइल और ऐमाइड से

उत्प्रेरक के रूप में  $\text{H}^+$  या  $\text{OH}^-$  आयनों की उपस्थिति में नाइट्रोइल पहले ऐमाइड और फिर अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं। अभिक्रिया को ऐमाइड पद पर रोकने के लिए मृदु अभिक्रिया परिस्थितियाँ प्रयुक्त की जाती हैं।



#### 4. ग्रीन्यार अभिकर्मक से


ग्रीन्यार अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड (शुष्क बर्फ) के साथ अभिक्रिया से कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण निर्मित करते हैं, जो खनिज अम्ल द्वारा अम्लन से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं।



जैसा कि हम जानते हैं; ग्रीन्यार अभिकर्मक एवं ऐल्कल हैलाइडों से विरचित किए जा सकते हैं। (देखिए एकक 6, कक्षा 12)। उपरोक्त विधियाँ (3 तथा 4) ऐल्कल हैलाइडों को संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित करने में उपयोगी हैं जिसमें ऐल्कल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से एक कार्बन परमाणु अधिक विद्यमान होता है (श्रेणी का अवरोहण)।


#### 5. ऐसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से

ऐसिल क्लोरोइड जल द्वारा जलअपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल या जलीय क्षारीय माध्यम में अधिक आसानी से जलअपघटित होकर कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं, जो अम्लन द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। दूसरी ओर ऐसिल एनहाइड्राइड जल द्वारा जलअपघटित होकर संगत अम्ल देते हैं।








#### 6. एस्टर से

एस्टरों के अम्लीय जल अपघटन से सीधे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जबकि क्षारीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलेट प्राप्त होते हैं, जो अम्लन द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं।



**उदाहरण 8.5** निम्नलिखित रूपांतरणों को करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए।

- (i) ब्यूटेन-1-ऑल से ब्यूटेनऑइक अम्ल
  - (ii) बेन्जाइल एल्कोहॉल से फेनिल एथेनऑइक अम्ल
  - (iii) 3-नाइट्रोबोपेबेन्जीन से 3-नाइट्रोबेन्जोइक अम्ल
  - (iv) 4-मेथिलऐसीटोफीनोन से बेन्जीन-1, 4-डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल
  - (v) साइक्लोहेक्सीन से हैक्सेन-1, 6-डाईओइक अम्ल
  - (vi) ब्यैटेनैल से ब्यैटेनऑइक अम्ल





## पाद्यनिहित प्रश्न

8.7 निम्नलिखित यौगिकों को बेन्जोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है?

- (i) एथिलबेन्जीन
- (ii) ऐसीटोफ्रीनोन
- (iii) ब्रोमोबेन्जीन
- (iv) फेनिलएथीन (स्टाइरीन)

## 8.8 शौतिक गुण



ऐलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी में नौ कार्बन परमाणुओं तक की शृंखला वाले सदस्य सामान्य ताप पर अरुचिकर गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। इस श्रेणी के उच्च सदस्य मोम जैसे ठोस होते हैं तथा अल्प वाष्पशील एवं व्यावहारिक रूप से गंधहीन होते हैं।

कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समतुल्य आण्विक द्रव्यमानों वाले ऐल्डहाइडों, कीटोनों यहाँ तक कि ऐल्कोहॉलों से भी उच्च होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का यह गुणधर्म उनके अणुओं में परस्पर अधिक व्यापक अंतराआण्विक हाइड्रोजन आबंधन द्वारा संगुणन के कारण उत्पन्न होता है। ये हाइड्रोजन आबंध वाष्प अवस्था में भी पूर्ण रूप से नहीं टूटते। वास्तव में अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प प्रावस्था एवं ऐप्रोटिक विलायकों में हाइड्रोजन आबंधित द्वितीय के रूप में उपस्थित होते हैं।

चार कार्बन परमाणु तक सरल ऐलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन आबंध निर्मित कर सकने के कारण जल में मिश्रणीय होते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ विलेयता घटती जाती है। उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोकार्बन शृंखला की जलविरागी अन्योन्यक्रिया बढ़ने के कारण विशेषकर जल में अविलेय होते हैं। बेन्जोइक अम्ल, जो कि सरलतम ऐरोमैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है; ठंडे जल में लगभग अविलेय होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बेन्जीन, ईथर, ऐल्कोहॉल, इत्यादि, जैसे क्रम ध्रुवीय विलायकों में भी विलेय होते हैं।



## 8.9 रासायनिक अभिक्रियाएँ

### 8.9.1 अभिक्रियाएँ जिनमें O-H आबंध का विदलन होता है


कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएँ निम्न प्रकार से वर्णीकृत हैं—

#### अम्लता

**धातु व क्षारों के साथ अभिक्रिया**— ऐल्कोहॉलों की तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल विद्युत धनी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं तथा फीनॉलों की तरह क्षारों के साथ लवण बनाते हैं। यह दुर्बल क्षारक जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजनकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। यह अभिक्रियाएँ यौगिक में उपस्थित कार्बोक्सिलिक समूह को पहचानने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं।



कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में वियोजित होकर कार्बोक्सिलेट ऋणायन तथा हाइड्रोनियम आयन देते हैं जो अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं।



## उपरोक्त अभिक्रिया के लिए—

$$K_{eq} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] [\text{RCOO}^-]}{[\text{H}_2\text{O}] [\text{RCOOH}]} \quad K_a = K_{eq} [\text{H}_2\text{O}] = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] [\text{RCOO}^-]}{[\text{RCOOH}]}$$

यहाँ  $K_{ea}$  साम्यावस्था स्थिरांक तथा  $K_a$  अम्ल वियोजन स्थिरांक है।


सुविधा के लिए अम्लों की सामर्थ्य सामान्यतः  $K_a$  मान की बजाय  $pK_a$  के मान से इंगित करते हैं।

$$pK_a = -\log K_a$$


हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के  $pK_a$  का मान -7.0 है, जबकि ट्राइफ्लुओरोऐसीटिक अम्ल (प्रबलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल), बेन्जोइक अम्ल तथा ऐसीटिक अम्ल के  $pK_a$  का मान क्रमशः 0.23, 4.19 एवं 4.76 होते हैं।

अम्ल का  $pK_a$  मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा (एक उत्तम प्रोटॉन दाता)। प्रबल अम्लों का  $pK_a$  मान 1 से कम होता है। मध्यम प्रबल अम्लों के  $pK_a$  मान 1 से 5 के मध्य होते हैं। दुर्बल अम्लों के  $pK_a$  के मान 5 से 15 के मध्य तथा अधिक दुर्बल अम्लों के  $pK_a$  मान 15 से अधिक होते हैं।

कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों से दुर्बल होते हैं परंतु ऐल्कोहॉलों एवं अनेक सरल फ़ीनॉलों से (एथेनॉल के  $pK_a$  का मान ~16 है तथा फ़ीनॉल का  $pK_a$  मान 10 होता है।) प्रबल होते हैं। वास्तव में आपने अब तक जिन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया है उनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय है। आपको पहले से ही ज्ञात है कि फ़ीनॉल ऐल्कोहॉल की अपेक्षा क्यों अधिक अम्लीय होते हैं। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्लों की फ़ीनॉलों की अपेक्षा उच्च अम्लता को समझा जा सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का संयुगमी क्षारक, कार्बोक्सिलेट आयन, दो समान अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है एवं इसमें ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित होते हैं। फ़ीनॉल का संयुगमी क्षारक एक फ़ीनॉक्साइड आयन होता है, जिसकी अनुनादी संरचनाएं असमान होती हैं तथा इनमें ऋणावेश अल्प विद्युतऋणी कार्बन परमाणु पर स्थित होता है। इसलिए फ़ीनॉक्साइड आयन में अनुनाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट आयन में। कार्बोक्सिलेट आयन का ऋणावेश दो विद्युतऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानित होता है, जबकि फ़ीनॉक्साइड आयन में यह ऋणावेश एक ऑक्सीजन परमाणु तथा कम विद्युतऋणी कार्बन परमाणु पर कम प्रभावशाली ढंग से विस्थानित होता है (एक 7, कक्षा 12)। फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन, फ़ीनॉक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फ़ीनॉलों की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं।



इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह  
(EWG) कार्बोक्सिलिक आयन  
को स्थायीकृत करते हैं जिससे  
अम्ल की सामर्थ्य बढ़ जाती है।




इलेक्ट्रॉन दाता समूह (EDG) कार्बोक्सिलेट आयन को अस्थायी बना देते हैं। और अम्ल को दुर्बल कर देते हैं।

**कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव**—प्रतिस्थापी संयुग्मी क्षारक के स्थायित्व को प्रभावित कर सकते हैं, अतः कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को भी प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह प्रेरणिक और या अनुनादी प्रभाव द्वारा ऋणावेश को विस्थानित करके संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन दाता समूह संयुग्मी क्षारक को अस्थायित्व प्रदान करके अम्लता घटा देते हैं।


निम्नलिखित समूहों का प्रभाव अम्लता बढ़ाने के क्रम में हैं।




अतः निम्नलिखित अम्लों को उनकी घटती हुई अम्लता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है (  $pK_a$  मान क्रम पर आधारित) –



कार्बोक्सिल समूह पर फेनिल अथवा वाइनिल समूह के सीधे संयुक्त होने से संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता बढ़ जाती है, जो नीचे दर्शाए गए अनुनाद प्रभाव के कारण अपेक्षित कमी के विपरीत है।




ऐसा कार्बोनिल समूह से संलग्नित  $sp^2$  संकरित कार्बन की उच्च विद्युतऋणात्मकता के कारण होता है। ऐरोमैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की फेनिल वलय पर इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह की उपस्थिति अम्लता को बढ़ाती है जबकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति अम्लता को घटाती है।



## 8.9.2 C-OH आबंध विदलन संबंधी अभिक्रियाएँ


## 1. एनहाइड्राइड का विचरण

कार्बोक्सिलिक अम्लों खनिज अम्लों जैसे  $\text{H}_2\text{SO}_4$  अथवा  $\text{P}_2\text{O}_5$  के साथ गर्म करने पर संगत एनहाइड्राइड बनते हैं।



## 2. एस्ट्रीकरण


कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐल्कोहॉलों अथवा फीनॉलों द्वारा सांक्र सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जैसे खनिज अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं।



ऐल्डहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल 257


## कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरीकरण की क्रियाविधि

कार्बोक्सिलिक अम्लों का ऐल्कोहॉलों के साथ एस्टरीकरण एक प्रकार की नाभिकरणी ऐसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कार्बोनिल की ऑक्सीजन का प्रोटॉन कार्बोनिल समूह को ऐल्कोहॉल के नाभिकरणी योगज के लिए सक्रिय कर देता है। चतुष्फलकीय मध्यवर्ती में एक प्रोटॉन का स्थानांतरण हाइड्रोक्सिल समूह को  $\text{HO}^+$  समूह में परिवर्तित कर देता है जो एक अधिक अच्छा अवशिष्ट समूह होने के कारण, उदासीन जल अणु के रूप में विलोपित हो जाता है। अंततः इस प्रकार निर्मित प्रोटॉनित एस्टर प्रोटॉन को त्यागकर एक एस्टर दे देती है।




### 3. $\text{PCl}_5$ , $\text{PCl}_3$ एवं $\text{SOCl}_2$ के साथ अभिक्रिया


कार्बोक्सिलिक अम्लों का हाइड्रोक्सिल समूह, ऐल्कोहॉलों के हाइड्रोक्सिल समूह की भाँति व्यवहार करता है और फॉस्फोरस पेन्टाक्लोराइड ( $\text{PCl}_5$ ), फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ( $\text{PCl}_3$ ) अथवा थायोनिल क्लोराइड ( $\text{SOCl}_2$ ) के साथ अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है। थायोनिल क्लोराइड को वरीयता दी जाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दो अन्य उत्पाद गैसीय होते हैं, जो अभिक्रिया मिश्रण से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए प्राप्त उत्पाद का परिशोधन सुगम हो जाता है।



### 4. अमोनिया के साथ अभिक्रिया

कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया द्वारा अमोनियम लवण बनते हैं जो अधिक उच्च ताप पर गर्म करने से ऐमाइड बनाते हैं। उदाहरणार्थ—






### 8.9.3 कार्बोक्सिलिक समूह ( $-\text{COOH}$ ) संबंधी अभिक्रियाएँ


#### 1. अपचयन

कार्बोक्सिलिक अम्ल लीथियम ऐलुमिनियम हाइड्राइड अथवा डाइबोरेन द्वारा प्राथमिक ऐल्कोहॉलों में अपचित हो जाते हैं। डाइबोरेन, एस्टर, नाइट्रो, हैलो इत्यादि जैसे प्रकार्यात्मक समूहों को सरलतापूर्वक अपचित नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिल समूह को अपचित नहीं करता।



#### 2. विकार्बोक्सिलन

कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों को सोडालाइम ( $\text{NaOH}$  तथा  $\text{CaO}$ , 3:1 के अनुपात में) के साथ गरम करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है एवं हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया विकार्बोक्सिलन (Decarboxylation) कहलाती है।




कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों के जलीय विलयन का वैद्युतअपघटन द्वारा विकार्बोक्सिलन हो जाता है तथा ऐसे हाइड्रोकार्बन निर्मित होते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, अम्ल के ऐल्किल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से दुगुनी होती है। इस अभिक्रिया को कोल्बे वैद्युत-अपघटन (Kolbe Electrolysis) कहते हैं। (एकक-9, कक्षा-11)

### 8.9.4 हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ


#### 1. हैलोजनन

ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें  $\alpha$ -हाइड्रोजन विद्यमान होता है, लाल फॉस्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा  $\alpha$ -हैलोकार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। इस अभिक्रिया को हेलफोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया (Hell-Volhard-Zelinsky Reaction) कहते हैं।



## 2. वलय प्रतिस्थापन

ऐरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें कार्बोक्सिल समूह एक निष्क्रियक एवं मेटा-निर्देशी समूह की भाँति व्यवहार करता है। ऐरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल **फ्रीडेल-क्राफ्ट्स** (**Friedel Crafts**) अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। (चूंकि कार्बोक्सिल समूह निष्क्रियक समूह है एवं उत्प्रेरक ऐलुमिनियम क्लोराइड (लूईस अम्ल) कार्बोक्सिल समूह से आबंधित हो जाता है।)



## पाद्यनिहित प्रश्न

**8.8** नीचे प्रदर्शित अम्लों के प्रत्येक युग्म में कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है?

- (i)  $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$  अथवा  $\text{CH}_2\text{FCO}_2\text{H}$
- (ii)  $\text{CH}_2\text{FCO}_2\text{H}$  अथवा  $\text{CH}_2\text{ClCO}_2\text{H}$
- (iii)  $\text{CH}_2\text{FCH}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$  अथवा  $\text{CH}_3\text{CHFCH}_2\text{CO}_2\text{H}$
- (iv)  $\text{F}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$  अथवा  $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$

## 8.10 कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग

मेथेनॉइक अम्ल रबर, वस्त्र, रँगाई, चमड़ा एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों में उपयोग में आता है। एथेनॉइक अम्ल विलायक के रूप में तथा खाद्य उद्योगों में सिरके के रूप में उपयोग किया जाता है। **हैक्सेनडाइओइक** अम्ल का उपयोग नाइलोन-6,6 के निर्माण में होता है। बेन्जोइक अम्ल की एस्टरों का उपयोग सुर्गंध द्रव्यों में होता है। सोडियम बेन्जोएट का उपयोग खाद्य परिक्षण में होता है। उच्चतर वसीय अम्लों का उपयोग साबुन एवं अपमार्जकों के उत्पादन में किया जाता है।

## सारांश

ऐल्डहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बनिक यौगिकों के कुछ महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित हैं। ये अत्यधिक ध्रुवीय अणु होते हैं। अतः ये हाइड्रोकार्बनों एवं तुलनीय आण्विक द्रव्यमानों वाले ईथरों जैसे कम ध्रुवीय यौगिकों की तुलना में अधिक ताप पर उबलते हैं। इनके निम्नतर सदस्य जल में अत्यधिक विलेय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं। उच्चतर सदस्य अत्यधिक लंबी जल विरागी कार्बन शृंखला की उपस्थिति के कारण जल में अविलेय होते हैं किंतु सामान्य कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ऐल्डहाइडों को प्राथमिक ऐल्कोहॉलों के विहाइड्रोजनन या नियंत्रित ऑक्सीकरण अथवा ऐसिल हैलाइडों के नियंत्रित अपचयन द्वारा विरचित किया जा सकता है। ऐरोमैटिक ऐल्डीहाइड भी ऑक्सीकरण द्वारा निम्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं।

1. ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड की उपस्थिति में मेथिल बैन्जीनों के क्रोमिलक्लोराइड अथवा  $\text{CrO}_3$  द्वारा ऑक्सीकरण से।
2. निर्जल ऐलुमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में ऐरीनो के कार्बनमोनोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा फार्मिलन।
3. बैन्जल क्लोराइड के जलअपघटन द्वारा।

कीटोनों को द्वितीयक ऐल्कोहॉलों के ऑक्सीकरण और ऐल्काइनों के जलयोजन (Hydration) से विरचित किया जाता है। कीटोनों को ऐसिल क्लोराइड की डाइऐलिकल कैडमियम के साथ अधिक्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता है। ऐरोमैटिक कीटोनों को विरचित करने की एक अच्छी विधि ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बनों का ऐसिल क्लोराइडों तथा ऐनहाइड्राइडों द्वारा फीडेल क्राफ्ट्स ऐसिलीनन है। ऐल्डहाइड एवं कीटोन दोनों ही ऐल्कीनों के ओजोन द्वारा विरचित किए जा सकते हैं। ऐल्डहाइड एवं कीटोन  $\text{HCN}$ ,  $\text{NaHSO}_3$  ऐल्कोहॉलों (या डाइऑलों), अमोनिया व्युत्पन्नों और ग्रीन्यार अभिकर्मकों जैसे अनेक नाभिकरागियों (Nucleophiles) के साथ कार्बोनिल समूह पर नाभिकरागी योगज अभिक्रियाएं देते हैं। ऐल्डहाइड एवं कीटोनों में उपस्थित  $\alpha$ -हाइड्रोजन अम्लीय होते हैं। अतः कम से कम एक  $\alpha$ -हाइड्रोजन युक्त ऐल्डहाइड एवं कीटोन क्षार की उपस्थिति में ऐल्डोल संघनन द्वारा क्रमशः  $\alpha$ -हाइड्रॉक्सीऐल्डहाइड (ऐल्डोल) एवं  $\beta$ -हाइड्रॉक्सीकीटोन (कीटोल) बनाते हैं। ऐसे ऐल्डहाइड जिनमें  $\alpha$ -हाइड्रोजन नहीं होता है सांद्र क्षार की उपस्थिति में कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं।  $\text{LiAlH}_4 \text{NaBH}_4$  या उत्प्रेरित हाइड्रोजनन से ऐल्डहाइड एवं कीटोन अपचित होकर ऐल्कोहॉल बनाते हैं। ऐल्डहाइडों एवं कीटोनों का कार्बोनिल समूह क्लीमेन्सन अपचयन या वोल्फ किशनर अपचयन द्वारा मेथेलीन समूह में अपचयित हो जाता है। टॉलेन अभिकर्मक एवं फेलिंग विलयन के समान मृदु ऑक्सीकरण अभिकर्मक ऐल्डहाइडों को आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इन ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का उपयोग ऐल्डहाइडों एवं कीटोनों में विभेद करने में किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का विरचन प्राथमिक ऐल्कोहॉलों, ऐल्डहाइडों एवं ऐल्कीनों के ऑक्सीकरण, नाइट्राइलों के जलअपघटन और ग्रीन्यार अभिकर्मकों की कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा किया जाता है। ऐरोमैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों को भी पाश्वं शृंखला वाले ऐल्कलबैन्जीन के ऑक्सीकरण से विरचित किया जा सकता है। यद्यपि कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में बहुत दुर्बल होते हैं, किंतु ऐल्कोहॉलों एवं अधिकतर अतिसरल फीनॉलों से काफी अधिक अम्लीय होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों को  $\text{LiAlH}_4$  या इससे बेहतर ईथर विलयन में डाइबोरेन द्वारा प्राथमिक ऐल्कोहॉलों में अपचित किया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में  $\text{Cl}_2$  या  $\text{Br}_2$  के साथ  $\alpha$ -हैलोजनन होता है (हेलफोलार्ड जेलिंसकी अभिक्रिया)। मेथेनैल, ऐथेनैल, प्रोपेनैन, बैन्जैल्डहाइड, फॉर्मिक अम्ल, ऐसीटिक अम्ल, बैन्जोइक अम्ल आदि अनेक कार्बोनिल यौगिक उद्योगों में महत्वपूर्ण हैं।


## अभ्यास

8.1 निम्नलिखित पदों (शब्दों) से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए।

- |                     |                |                            |
|---------------------|----------------|----------------------------|
| (i) सायनोहाइड्रिन   | (v) हेमीऐसीटेल | (viii) इमीन                |
| (ii) ऐसीटल          | (vi) ऑक्सिम    | (ix) 2, 4 - DNP व्युत्पन्न |
| (iii) सेमीकार्बोजोन | (vii) कीटैल    | (x) शिफ-क्षारक             |
| (iv) ऐल्डोल         |                |                            |

- 8.2** निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी (IUPAC) नामपद्धति में नाम लिखिए -
- $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$
  - $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$
  - $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCHO}$
  - $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COCH}_3$
  - $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{COCH}_3$
  - $(\text{CH}_3)_3\text{CCH}_2\text{COOH}$
  - $\text{OHCC}_6\text{H}_4\text{CHO}-p$
- 8.3** निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए।
- 3-मेर्थिलब्यूटेनैल
  - p-नाइट्रोप्रोपाफीनोन
  - p-मेर्थिलबेन्जाल्डहाइड
  - 4-मेर्थिलपेन्ट-3-इन-2-ओन
  - 4-क्लोरोपेन्टेन-2-ऑन
  - 3-ब्रोमो-4-फेनिल पेन्टेनॉइक अम्ल
  - p,p'-डाइहाइड्रोक्सीबेन्जोफीनोन
  - हेक्स-2-इन-4-आइनोइक अम्ल
- 8.4** निम्नलिखित ऐल्डहाइडों एवं कीटोनों के आईयूपीएसी (IUPAC) नाम लिखिए और जहाँ संभव हो सके साधारण नाम भी दीजिए।
- $\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$
  - $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHBrCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CHO}$
  - $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CHO}$
  - $\text{Ph-CH=CH-CHO}$
  - 
  - $\text{PhCOPh}$
- 8.5** निम्नलिखित व्युत्पन्नों की संरचना बनाइए-
- बेन्जेल्डहाइड का 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजोन
  - साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्सिम
  - ऐसीटैल्डहाइडडाइमेरिथिलऐसीटैल
  - साइक्लोबेन्जेनकार्बेल्डहाइड का सेमीकार्बेज़ोन
  - हेक्सेन-3-ओन का एथिलीन कीटेल
  - फॉर्मेल्डहाइड का मेर्थिल हेमीऐसीटेल
- 8.6** साइक्लोबेन्जेनकार्बेल्डहाइड की निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया से बनने वाले उत्पादों को पहचानिए-
- $\text{PhMgBr}$  एवं  $\text{H}_3\text{O}^+$
  - टॉलेन अभिकर्मक
  - सेमीकार्बेज़ोन एवं दुर्बल अम्ल
  - एथेनॉल का आधिक्य तथा अम्ल
  - ज़िंक अमलगम एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
- 8.7** निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में ऐल्डोल संघनन होगा, किनमें कैनिज़ारो अभिक्रिया होगी और किनमें उपरोक्त में से कोई क्रिया नहीं होगी? ऐल्डोल संघनन तथा कैनिज़ारो अभिक्रिया में संभावित उत्पादों की संरचना लिखिए।
- मेर्थेनैल
  - 2-मेर्थिलपेन्टेनैल
  - बेन्जेल्डहाइड
  - बेन्जोफीनैन
  - साइक्लोबेन्जेनोन
  - 1-फेनिलप्रोपेनोन
  - फेनिलऐसीटैल्डहाइड
  - ब्यूटेन-1-ऑल
  - 2,2-डाइमेरिथिलब्यूटेनैल
- 8.8** एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे?
- ब्यूटेन-1,3-डाईऑल
  - ब्यूट-2-इनैल
  - ब्यूट-2-इनॉइक अम्ल
- 8.9** प्रोपेनैल एवं ब्यूटेनैल के ऐल्डोल संघनन से बनने वाले चार संभावित उत्पादों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। प्रत्येक में बताइए कि कौन सा ऐल्डहाइड नाभिकरणी और कौन सा इलेक्ट्रॉनरागी होगा?
- 8.10** एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र  $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}$  है 2,4 DNP व्युत्पन्न बनाता है, टॉलेन अभिकर्मक को अपचित करता है तथा कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर वह 1,2-बेन्जीनडाईकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यौगिक को पहचानिए।
- 8.11** एक कार्बनिक यौगिक 'क' (आणिक सूत्र,  $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2$ ) को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जलअपघटित करने के उपरांत एक कार्बोक्सिलिक अम्ल 'ख' एवं एक ऐल्कोहॉल 'ग' प्राप्त हुई। 'ग' को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर 'ख' उत्पन्न होता है। 'ग' निर्जलीकरण पर ब्यूट-1-इन देता है। अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाली सभी रासायनिक समीकरणों को लिखिए।

- 8.12** निम्नलिखित यौगिकों को उनसे संबंधित (कोष्ठकों में दिए गए) गुणधर्मों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए—  
 (i) ऐसीटैलिडहाइड, ऐसीटोन, डाइ-तृतीयक-ब्यूटिलकीटोन, मेथिलतृतीयक-ब्यूटिलकीटोन (HCN के प्रति अभिक्रियाशीलता)  
 (ii)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{Br})\text{COOH}$ ,  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{Br})\text{CH}_2\text{COOH}$ ,  $(\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH}$ ,  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$  (अम्लता के क्रम में)  
 (iii) बेन्जोइक अम्ल; 4-नाइट्रोबेन्जोइक अम्ल; 3,4-डाईनाइट्रोबेन्जोइक अम्ल; 4-मेथॉक्सी बेन्जोइक अम्ल (अम्लता की सामर्थ्य के क्रम में)
- 8.13** निम्नलिखित यौगिक युग्मों में विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षणों को दीजिए—  
 (i) प्रोपेनैल एवं प्रोपेनोन (v) पेन्टेन-2-ऑन एवं पेन्टेन-3-ऑन  
 (ii) ऐसीटोफीनैन एवं बेन्जोफीनैन (vi) बेन्जैलिडहाइड एवं ऐसीटोफीनैन  
 (iii) फीनैलैल एवं बेन्जोइक अम्ल (vii) एथेनैल एवं प्रोपेनैल  
 (iv) बेन्जोइक अम्ल एवं एथिनबेन्जोएट
- 8.14** बेन्जीन से निम्नलिखित यौगिकों का विरचन आप किस प्रकार करेंगे? आप कोई भी अकार्बनिक अभिकर्मक एवं कोई भी कार्बनिक अभिकर्मक, जिसमें एक से अधिक कार्बन न हो, का उपयोग कर सकते हैं।  
 (i) मेथिल बेन्जोएट (ii) *m*-नाइट्रोबेन्जोइक अम्ल  
 (iii) *p*-नाइट्रोबेन्जोइक अम्ल (iv) फेनिलऐसीटिक अम्ल  
 (v) *p*-नाइट्रोबेन्जैलिडहाइड
- 8.15** आप निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम दो चरणों में किस प्रकार से संपन्न करेंगे?  
 (i) प्रोपेनैल से प्रोपीन (vi) ब्रोमोबेन्जीन से 1-फेनिलएथेनैल  
 (ii) बेन्जोइक अम्ल से बेन्जैलिडहाइड (vii) बेन्जैलिडहाइड से 3-फेनिलप्रोपेन-1-ऑल  
 (iii) एथेनैल से 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनैल (viii) बेन्जैलिडहाइड से  $\alpha$ -हाइड्रोक्सीफेनिलऐसीटिक अम्ल  
 (iv) बेन्जीन से *m*-नाइट्रोऐसीटोफीनैन (ix) बेन्जोइक अम्ल से *m*-नाइट्रोबेन्जिल ऐल्कोहॉल
- 8.16** निम्नलिखित पदों (शब्दों) का वर्णन करो—  
 (i) ऐसीटिलिनन (iii) क्रॉस ऐल्डोल संघनन  
 (ii) कैनिजारो अभिक्रिया (iv) विकार्बोक्सिलन
- 8.17** निम्नलिखित प्रत्येक संश्लेषण में छूटे हुए प्रारंभिक पदार्थ, अभिकर्मक अथवा उत्पादों को लिखकर पूर्ण कीजिए—



**8.18** निम्नलिखित के संभावित कारण दीजिए-

(i) साइक्लोहेक्सेनोन अच्छी तर्बि में सायनोहाइड्रिन बनाता है। परंतु 2, 2, 6-ट्राइमेथिलसाइक्लोहेक्सेनोन ऐसा नहीं करता।
















(ii) सेमीकार्बोज़ाइड में दो -NH<sub>2</sub> समूह होते हैं, परंतु केवल एक -NH<sub>2</sub> समूह ही सेमीकार्बोज़ोन विरचन में प्रयुक्त होता है।


(iii) कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एल्कोहॉल से, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर के विरचन के समय जल अथवा एस्टर जैसे ही निर्मित होता है उसको निकाल दिया जाना चाहिए।

**8.19** एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% कार्बन 11.63% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का आण्विक द्रव्यमान 86 है। यह टॉलेन अभिकर्मक को अपचित नहीं करता परंतु सोडियम हाइड्रोजेनसल्फाइट के साथ योगज यौगिक देता है तथा आयोडोफार्म परीक्षण देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर एथेनॉइक तथा प्रोपेनॉइक अम्ल देता है। यौगिक की संभावित संरचना लिखिए।


**8.20** यद्यपि फीनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में अधिक है परंतु कार्बोक्सिलिक अम्ल फीनॉल की अपेक्षा प्रबल अम्ल है। क्यों?

## कुछ पाठ्यनिहित प्रश्नों के उत्तर





- 8.6**
- (i) 3-फेनिलप्रोपेनॉइक अम्ल
  - (ii) 3-मेथिलब्यूट-2-इनोइक अम्ल
  - (iii) 2-मेथिलसाइक्लोपेन्टेनकार्बोक्सिलिक अम्ल
  - (iv) 2,4,6-ट्रीइनाइट्रोबेन्जोइक अम्ल



- 8.8**
- (i)  $\text{CH}_2\text{FCOOH}$
  - (ii)  $\text{CH}_2\text{FCOOH}$
  - (iii)  $\text{CH}_3\text{CHFCH}_2\text{COOH}$
  - (iv)